

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसिज और बाइक

### ब्रैम्पटन ने डाउनटाउन ब्रैम्पटन बाइक हब खोला

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (25 अगस्त, 2022) – पिछले सप्ताह, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, अपने साझेदारों पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसिज (पी.सी.एच.एस.) (Punjabi Community Health Services) (PCHS) और बाइक ब्रैम्पटन (Bike Brampton) के साथ मिलकर इकट्ठे, सुरक्षित साइकलिंग में वृद्धि और इसकी हिमायत करने के लिए डाउनटाउन ब्रैम्पटन बाइक हब (Downtown Brampton Bike Hub): डिफरेंट स्पोकस (Different Spokes) खोला।

ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है और सिटी, उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और आनंददायक यात्रा अनुभव तैयार करने और सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिबद्ध है। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने 2 मार्च, 2022 को अपनी मीटिंग में, स्टाफ को निर्देश दिया कि वह पी.सी.एच.एस. (PCHS) के साथ शॉर्ट-टर्म की लीज़ पर काम करे, ताकि वह इस बेजोड़ साझेदारी के लिए कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हुए, 8 नेल्सन स्ट्रीट वेस्ट, यूनिट 104 (8 Nelson Street West, Unit 104) में सिटी के स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी से ब्रैम्पटन बाइक हब चला पाए, यह ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए काम करेगी।

डिफरेंट स्पोकस, एक मूल, कम्युनिटी के नेतृत्व वाला हब है, जो ब्रैम्पटन में सुरक्षित साइकलिंग के लिए प्रोत्साहित करेगा, इसमें वृद्धि करेगा और इसकी हिमायत करेगा। इस डाउनटाउन ब्रैम्पटन बाइक हब में, पी.सी.एच.एस. यह करेगी:

- बाइक-संबंधी सेवाएं प्रदान करना, जैसे असिस्टेड बाइक मरम्मत और मरम्मत की गई बाइकों और बाइक के पुर्जों की दुबारा बिक्री;
- ब्रैम्पटन में बढ़ी हुई सुरक्षित साइकलिंग के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें वृद्धि करना और इसकी हिमायत करना;
- बिक्री और किराए के लिए मरम्मत की गई बाइकों तक पहुंच प्रदान करना;
- साइकलिंग के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए कम्युनिटी और मेंटरिंग प्रोग्राम प्रदान करना; और
- स्वस्थ कम्युनिटीज और स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रोत्साहित करना।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, 'स्ट्रीट्स फॉर पीपल' ('Streets for People') बनाना और सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि करना जारी रखा हुआ है। इस वर्ष, सिटी, 530 किलोमीटर से अधिक के साइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइकिंग, वॉकिंग और रेक्रिएशनल ट्रेल्स के एक मौजूदा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन (Active Transportation) नेटवर्क में, 30 से अधिक नए किलोमीटर का वॉकिंग और साइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल कर रही है।

ब्रैम्पटन में साइकलिंग के बारे में अधिक जानकारी, [यहां \(here\)](#) और ब्रैम्पटन में सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानकारी, [यहां \(here\)](#) पाएं।

हवाले

"ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है और हम, हमारी कम्युनिटी की जरूरतों की हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए हम साइकलिंग के बारे में शिक्षा और जागरूकता तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं और सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन तथा रेक्रिएशन के द्वारा, संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर रहे हैं। हम, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में डिफरेंट स्पोकस के खुलने की हिमायत करने के लिए उत्साहित हैं। यह क्षेत्र में स्वागत वाली वृद्धि है और हमारे पहले से ही मौजूद व्यापक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में वृद्धि करने में मदद करेगा।"

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

"ब्रैम्पटन बाइक हब, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में एक शानदार वृद्धि है। डिफरेंट स्पोकस न केवल बाइक के लिए जोशीले व्यक्तियों हेतु साइकलिंग सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि यह नए साइकलिस्ट्स को सिखाएगा और सहायता भी करेगा और हर उम्र के निवासियों के लिए स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली में वृद्धि करेगा। मैं हमारे शहर में इस साझेदारी को देखने के लिए उत्साहित हूं और मैं हर किसी को सलाह देता हूं कि पी.सी.एच.एस. द्वारा पेश की जाने वाली जानकारी का लाभ लें और ब्रैम्पटन की खूबसूरत और देखने योग्य ट्रेल्स का आनंद लें।"

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

"सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्ट्रीट्स फॉर पीपल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली में वृद्धि करने और हमारे निवासियों के लिए शानदार सुविधाएं प्रदान करने के लिए, पूरे शहर में साझेदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखने के लिए उत्साहित हैं।"

- पॉल मॉरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)

